



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 77]
No. 77]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 29, 1979/चैत्र 8, 1901
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 1979/CHAITRA 8, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(अप्रत्यक्ष कर विभाग)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1979

सार्वजनिक सूचनाएं

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Indirect Taxes Division)

New Delhi, the 29th March, 1979

PUBLIC NOTICES

सं० प्रतिभवायगी/सा० सू० 31/79.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिभवायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिभवायगी/सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप क्रम सं० 2203 की मद (क) के सामने 'प्रतिभवायगी की दर' स्तम्भ में मद (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“चाय की ऐसी पेटियों के सतही रकबे के प्रति एक सौ वर्ग मीटर पर 199.60 रु० (केवल एक सौ नित्यानवें रुपये और माठ पैसे) जमा”

यह सार्वजनिक सूचना 3 अप्रैल, 1979 को लागू हुई समझी जाएगी।

No. DRAWBACK/PN-31/79.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F, No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary, dated the 25th August, 1971), The Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :—

In the Column 'Rate of drawback' against item (A) of Sub-Serial 2203 for item (i), the following shall be substituted, namely :—

“Rs. 199.60 (Rupees one hundred ninety nine and Paise sixty only) per one hundred square metres of the surface area of such tea chests, plus”

This Public Notice shall come into force on the 3rd day of April, 1979.

सं० प्रतिभवायगी/सा० सू० 32/79.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिभवायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52 फा० सं०

602/2/70-प्र०प्र०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्र०प्र०/सा०सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रम सं० 2205 और उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

उपक्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिप्रदायगी की दर
2205	चाय की पेटियों से भिन्न प्लाईवुड की पेटियाँ—	
(i)	वे पैनल जिनमें से प्रत्येक का सतही रकबा 5625 वर्ग से०मी० या उससे कम है	ऐसे पैनलों के प्रति 100 वर्ग मीटर पर 144.90 रु० (केवल एक सौ चत्वारसीस रुपये और नब्बे पैसे)
(ii)	वे पैनल जिनमें से प्रत्येक का सतही रकबा 5625 वर्ग से०मी० से अधिक हो।	ऐसे पैनलों के प्रति 100 वर्ग मीटर पर 242.50 रु० (केवल दो सौ अठ्ठासी रुपये और पचास पैसे)

स्पष्टीकरण :—(i) उपक्रम सं० 2205 के अस्तंगत दी गई दर, 4 मि०मी० मोटाई वाले प्लाईवुड पैनलों के लिये है। अन्य मोटाइयों के लिये दर अनुपाततः बढ़ाई या घटाई जाएगी।

(ii) उपक्रम सं० 2204 में निर्धारित ग्लू लाइन के प्रति 100 वर्ग मीटर पर प्रति प्रदायगी की दर उपक्रम सं० 2205 में विहित दरों के अलावा मंजूर की जाएगी।

यह सार्वजनिक सूचना 3 अप्रैल, 1979 से लागू हुई समझी जाएगी।

सं० प्रति प्रदायगी/सा०सू० 33/79.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, प्रसाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का०सं० 602/2/70-प्र०प्र०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी सा०सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रम सं० 102 से 118 के 'प्रतिप्रदायगी की दर' स्तम्भ में प्रत्येक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

ऐसे माल के प्रति बिंदुल पर प्रतिप्रदायगी की दर				
उपक्रम सं०	16-11-78 से 2-2-79 तक	3-2-79 से 28-2-79 तक	1-3-79 से 31-3-79 तक	1-4-79 से
1	2	3	4	5
102	19.43 रु० (केवल उन्नीस रुपये और तैंतालीस पैसे)	18.52 रु० (केवल अठ्ठास रुपये और बावन पैसे)	17.17 रु० (केवल सत्रह रुपये और सत्रह पैसे)	16.26 रु० (केवल सोलह रुपये और छब्बीस पैसे)
103	23.31 रु० (केवल तेईस रुपये और इक्कीस पैसे)	22.23 रु० (केवल बाईस रुपये और तेईस पैसे)	20.60 रु० (केवल बीस रुपये और साठ पैसे)	19.52 रु० (केवल उन्नीस रुपये और बावन पैसे)
104(क)	6.22 रुपये (केवल छः रुपये और बाईस पैसे)	5.93 रु० (केवल पांच रुपये और तिरानवे पैसे)	5.49 रु० (केवल पांच रुपये और उनचास पैसे)	5.20 रु० — (केवल पांच रुपये और बीस पैसे)

No. [DRAWBACK/PN-32/79.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :—

For Sub-Serial No. 2205 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
2205	Plywood cases other than tea chests—	
(i)	Panels of surface area of 5625 square cms. or less each.	Rs. 144.90 (Rupees one hundred forty four and paise ninety only) per 100 square metres of such panels.
(ii)	Panels of surface area exceeding 5625 square cms. each.	Rs. 242.50 (Rupees two hundred forty two and Paise fifty only) per 100 square metres of such panels.

EXPLANATION :— (i) The rate under Sub-Serial 2205 is for 4mm thickness of plywood panels. The rate shall be proportionately enhanced or reduced for other thicknesses.

(ii) The drawback rate per 100 square metres of glue line prescribed in Sub-Serial No. 2204 shall be allowed in addition to the rates prescribed under Sub-Serial No. 2205.

This Public Notice shall come into force on the 3rd day of April, 1979.

ऐसे माल के प्रति किबटन पर प्रति भ्रदायगी की दर

1	2	3	4	5
104(ख)	5.25 रु० (केवल पांच रुपये और पच्चीस पैसे)	5.00 रु० (केवल पांच रुपये)	4.64 रु० (केवल चार रुपये और चौंसठ पैसे)	4.39 रु० (केवल चार रुपये और उन्नालीस पैसे)
105	15.54 रु० (केवल पंद्रह रुपये और बीवन पैसे)	14.82 रु० (केवल चौदह रुपये और बयासी पैसे)	13.74 रु० (केवल तेरह रुपये और चौदस पैसे)	13.01 रु० (केवल तेरह रुपये और एक पैसा)
106	25.26 रु० (केवल पच्चीस रुपये और छत्तीस पैसे)	24.08 रु० (केवल बीस रुपये और आठ पैसे)	22.32 रु० (केवल बारह रुपये और बत्तीस पैसे)	21.14 रु० (केवल इक्कीस रुपये और बीस पैसे)
107	11.66 रु० (केवल ग्यारह रुपये और छियासठ पैसे)	11.11 रु० (केवल ग्यारह रुपये और ग्यारह पैसे)	10.30 रु० (केवल दस रुपये और तीस पैसे)	9.76 रु० (केवल नौ रुपये और छिहत्तर पैसे)
108	15.54 रु० (केवल पंद्रह रुपये और बीवन पैसे)	14.82 रु० (केवल चौदह रुपये और बयासी पैसे)	13.74 रु० (केवल तेरह रुपये और चौदस पैसे)	13.01 रु० (केवल तेरह रुपये और एक पैसा)
109	21.37 रु० (केवल इक्कीस रुपये और सैतीस पैसे)	20.38 रु० (केवल बीस रुपये और अठ्तीस पैसे)	18.88 रु० (केवल अठ्ठास रुपये और अठ्ठासी पैसे)	17.89 रु० (केवल सत्रह रुपये और नवासी पैसे)
110	23.31 रु० (केवल तेईस रुपये और इक्कीस पैसे)	22.23 रु० (केवल बारह रुपये और तेईस पैसे)	20.60 रु० (केवल बीस रुपये और साठ पैसे)	19.52 रु० (केवल उन्नीस रुपये और बावन पैसे)
111	23.31 रु० (केवल तेईस रुपये और इक्कीस पैसे)	22.23 रु० (केवल बारह रुपये और तेईस पैसे)	20.60 रु० (केवल बीस रुपये और साठ पैसे)	19.52 रु० (केवल उन्नीस रुपये और बावन पैसे)
112(क)	1.94 रु० (केवल एक रुपया और चौरानवे पैसे)	1.85 रु० (केवल एक रुपया और पचासी पैसे)	1.72 रु० (केवल एक रुपया और बहत्तर पैसे)	1.63 रु० (केवल एक रुपया और निरसठ पैसे)
112(ख)	1.17 रु० (केवल एक रुपया और सलह पैसे)	1.11 रु० (केवल एक रुपया और ग्यारह पैसे)	1.03 रु० (केवल एक रुपया और तीन पैसे)	0.98 रु० (केवल अठानवे पैसे)
113	23.31 रु० (केवल तेईस रुपये और इक्कीस पैसे)	22.23 रु० (केवल बारह रुपये और तेईस पैसे)	20.60 रु० (केवल बीस रुपये और साठ पैसे)	19.52 रु० (केवल उन्नीस रुपये और बावन पैसे)
114	3.88 रु० (केवल तीन रुपये और अठ्ठासी पैसे)	3.70 रु० (केवल तीन रुपये और सत्तर पैसे)	3.43 रु० (केवल तीन रुपये और तैनालीस पैसे)	3.25 रु० (केवल तीन रुपये और पच्चीस पैसे)
115 से 118	5.82 रु० (केवल पांच रुपये और बयासी पैसे)	5.55 रु० (केवल पांच रुपये और पचपन पैसे)	5.15 रु० (केवल पांच रुपये और पन्द्रह पैसे)	4.88 रु० (केवल चार रुपये और अठ्ठासी पैसे)

No. DRAWBACK/PN-33/79.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No.602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), The Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :—

In the Column 'Rate of drawback' against sub-Serial Nos. 102 to 118 the following shall be substituted as shown against each namely:—

Sub-Serial No.	Rate of drawback per quintal of such goods			
	W.c.f. 16-11-78 to 2-2-79	From 3-2-79 to 28-2-79	From 1-3-79 to 31-3-79	From 1-4-79
102	Rs. 19.43 (Rs. Nineteen and Paise forty three only).	Rs. 18.52 (Rs. Eighteen and Paise fifty two only).	Rs. 17.17 (Rs. Seventeen and Paise seventeen only).	Rs. 16.26 (Rs. Sixteen and Paise twenty six only).
103	Rs. 23.31 (Rs. Twenty three and Paise thirty one only).	Rs. 22.23 (Rs. Twenty two and Paise twenty-three only).	Rs. 20.60 (Rs. Twenty and Paise sixty only).	Rs. 19.52 (Rs. Nineteen and Paise fifty-two only).
104(a)	Rs. 6.22 (Rs. Six and Paise twenty-two only).	Rs. 5.93 (Rs. Five and Paise ninety-three only).	Rs. 5.49 (Rs. Five and Paise forty nine only).	Rs. 5.20 (Rs. Five and Paise twenty only).
104(b)	Rs. 5.25 (Rupees Five and Paise twenty five only).	Rs. 5.00 (Rupees five only).	Rs. 4.64 (Rupees four and Paise sixty-four only).	Rs. 4.39 (Rupees four and Paise thirty nine only).
105	Rs. 15.54 (Rupees Fifteen and Paise fifty four only).	Rs. 14.82 (Rupees fourteen and Paise eighty two only).	Rs. 13.74 (Rupees thirteen and Paise seventy four only).	Rs. 13.01 (Rupees thirteen and Paise one only).
106	Rs. 25.26 (Rupees twenty-five and Paise twenty six only).	Rs. 24.08 (Rupees twenty four and Paise eight only).	Rs. 22.32 (Rupees twenty-two and Paise thirty-two only).	Rs. 21.14 (Rupees twenty one and Paise fourteen only).
107	Rs. 11.66 (Rupees Eleven and Paise sixty six only).	Rs. 11.11 (Rupees Eleven and Paise eleven only).	Rs. 10.30 (Rupees ten and Paise thirty only).	Rs. 9.76 (Rupees nine and Paise seventy-six only).
108	Rs. 15.54 (Rupees Fifteen and Paise fifty four only).	Rs. 14.82 (Rupees Fourteen and Paise eighty two only).	Rs. 13.74 (Rupees thirteen and Paise seventy four only).	Rs. 13.01 (Rupees thirteen and Paise one only).
109	Rs. 21.37 (Rupees twenty one and Paise thirty seven only).	Rs. 20.38 (Rupees twenty and Paise thirty eight only).	Rs. 18.88 (Rupees Eighteen and Paise eighty eight only).	Rs. 17.89 (Rupees Seventeen and Paise eighty-nine only).
110	Rs. 23.31 (Rupees Twenty-three and Paise thirty one only).	Rs. 22.23 (Rupees Twenty two and Paise twenty three only).	Rs. 20.60 (Rupees twenty and Paise sixty only).	Rs. 19.52 (Rupees nineteen and Paise fifty-two only).
111	Rs. 23.31 (Rupees twenty-three and Paise thirty one only).	Rs. 22.23 (Rupees twenty two and Paise twenty-three only).	Rs. 20.60 (Rupees twenty and Paise sixty only).	Rs. 19.52 (Rupees nineteen and Paise fifty-two only).
112(a)	Rs. 1.94 (Rupee one and Paise ninety-four only).	Rs. 1.85 (Rupee one and Paise eighty-five only).	Rs. 1.72 (Rupee one and Paise seventy two only).	Rs. 1.63 (Rupee one and Paise sixty-three only).
112(b)	Rs. 1.17 (Rupee one and Paise seventeen only).	Rs. 1.11 (Rupee one and Paise eleven only).	Rs. 1.03 (Rupee one and Paise three only).	Rs. 0.98 (Paise ninety-eight only).
113	Rs. 23.31 (Rupees twenty-three and Paise thirty one only).	Rs. 22.23 (Rupees twenty-two and Paise twenty-three only).	Rs. 20.60 (Rupees Twenty and Paise sixty only).	Rs. 19.52 (Rupees nineteen and Paise fifty two only).
114	Rs. 3.88 (Rupees three and Paise eighty-eight only).	Rs. 3.70 (Rupees three and Paise seventy only).	Rs. 3.43 (Rupees three and paise forty-three only).	Rs. 3.25 (Rupees three and Paise twenty-five only).
115 to 118	Rs. 5.82 (Rupees Five and Paise eighty two only).	Rs. 5.55 (Rupees five and Paise fifty-five only).	Rs. 5.15 (Rupees five and Paise fifteen only).	Rs. 4.88 (Rupees four and Paise eighty-eight only).

सं० प्रतिभ्रदायगी/सां०सू० 34/79.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रति भ्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, भासाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52 फा०सं० 602/2/70 प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथा-संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिभ्रदायगी/सां०सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित गारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप क्रम सं० 2902 के सामने उल्लिखित प्रतिभ्रदायगी की दरें 9-5-79 तक वैध रहेंगी।

No. DRAWBACK/IN-34/79.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No., DRAWBACK/IN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :—

The rates of drawback mentioned against sub-Serial No. 2902 shall be valid upto 9-5-1979.

सं० प्रतिभ्रदायगी/सां०सू० 35/79.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिभ्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, भासाधारण दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिभ्रदायगी/सां०सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित गारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. "प्रतिभ्रदायगी की दर" कालम में उप क्रमांक 3605 की मद (ii) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"968 रुपये (केवल नौ सौ अड़सठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

2. "प्रतिभ्रदायगी की दर" कालम में उप क्रमांक 3606 की मद (ख) की उप मद (ii) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"528 रु० (केवल पांच सौ अड़ठारस रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

3. 'प्रतिभ्रदायगी की दर' कालम में उप क्रमांक 3608 की मद (क) की उपमद (ii) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"575 रु० (केवल पांच सौ पचहत्तर रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

4. 'प्रतिभ्रदायगी की दर' कालम में उप क्रमांक 3608 की मद (ख) की उप-मद (ii) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"581 रु० (केवल पांच सौ इकसो रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

5. 'प्रतिभ्रदायगी की दर' कालम में उप क्रमांक 3608 के खण्ड (ग) की मद (i) की उप-मद (ख) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"895 रु० (केवल आठ सौ पचानवे रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

6. 'प्रतिभ्रदायगी की दर' कालम में उप क्रमांक 3608 के खण्ड (ग) की मद (ii) की उपमद (ख) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"935 रु० (केवल नौ सौ पैंतीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

7. प्रतिभ्रदायगी की दर' कालम में उप क्रमांक 3608 की मद (घ) की उपमद (ii) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"770 रु० (केवल सात सौ सत्तर रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

1359 GI/78—2

8. 'प्रतिभ्रदायगी की दर' कालम में उप क्रमांक 3608 के खण्ड (ङ) के उप-खण्ड (i) की मद (i) की उपमद (ख) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"720 रुपये (केवल सात सौ सत्तर रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

9. 'प्रतिभ्रदायगी की दर' कालम में उप क्रमांक 3608 की खण्ड (ङ) के उपखण्ड (i) की मद (ii) की उपमद (ख) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"581 रु० (केवल पांच सौ इकसो रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

10. 'प्रतिभ्रदायगी की दर' कालम में उप क्रमांक 3608 के खण्ड (ङ) की मद (2) की उपमद (ii) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"403 रु० (केवल चार सौ तीन रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

11. 'प्रतिभ्रदायगी की दर' कालम में उप क्रमांक 3609 के खण्ड (ख) की मद (ii) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"549 रुपये (केवल पांच सौ उनचास रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

12. 'प्रतिभ्रदायगी की दर' कालम में उप क्रमांक 3611 के खण्ड (ख) की मद (ii) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"661 रुपये (केवल छः सौ इकसठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

13. 'प्रतिभ्रदायगी की दर' कालम में उप क्रमांक 3613 की मद (ii) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"505 रु० (केवल पांच सौ पांच रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

14. 'प्रतिभ्रदायगी की दर' कालम में उप क्रमांक 3615 की मद (ii) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"952 रु० (केवल नौ सौ बावन रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

15. 'प्रतिभ्रदायगी की दर' कालम में उप क्रमांक 3616 की मद (ii) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"403 रु० (केवल चार सौ तीन रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

16. 'प्रतिभ्रदायगी की दर' कालम में उप क्रमांक 3617 की मद (ii) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"661 रु० (केवल छः सौ इकसठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

17. 'प्रतिभ्रदायगी की दर' कालम में उप क्रमांक 3621 की मद (ii) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"670 रु० (केवल छः सौ सत्तर रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

18. 'प्रतिभ्रदायगी की दर' कालम में उप क्रमांक 3625 के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"775 रु० (केवल सात सौ पचहत्तर रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

19. 'प्रतिभ्रदायगी की दर' कालम में उप क्रमांक 3629 की मद (ii) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"703 रु० (केवल सात सौ तीन रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

20. 'प्रतिभ्रदायगी की दर' कालम में उप क्रमांक 3631 की मद (ii) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"731 रु० (केवल सात सौ इकतीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

21. 'प्रतिभ्रदायगी की दर' कालम में उप क्रमांक 3640 की मद (ङ) की उपमद (ii) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"503 रु० (केवल पांच सौ तीन रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

22. 'प्रतिभ्रदायगी की दर' कालम में उप क्रमांक 3640 की मद (घ) की उपमद (ii) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"803 रु० (केवल आठ सौ तीन रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

23. 'प्रतिभ्रदायगी की दर' कालम में उप क्रमांक 3640 की मद (ज) की उपमद (ii) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"633 रु० (केवल छः सौ तैंतीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

24. 'प्रतिप्रदायगी की दर' काष्ठम में उप-क्रमांक 3640 की मद (i) की उपमद (ii) के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"769 रु० (केवल गाल्ट मी उनहूँर रुपये) प्रति मीट्रिक टन।"

25. 'प्रतिप्रदायगी की दर' काष्ठम में उप-क्रमांक 3812 की मद (ख) के सामने "गाल्विनीकृत इस्पात अलर्नबेस्तु का 520 रु० (केवल पांच मी त्रीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन" शब्दों और अंकों के स्थान पर "गाल्विनीकृत इस्पात अलर्नबेस्तु का 587 रु० (केवल पांच मी गतासी रुपये) प्रति मीट्रिक टन" शब्द और अंक पड़ें।

26. यह सार्वजनिक सूचना अक्टूबर, 1978 के 25वें दिन को लागू हुई समझी जाएगी।

महेष् कुमार, अव्वर सचिव

PUBLIC NOTICE

No. DRAWBACK/PN-35/79.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971). The Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :—

1. In the Column 'Rate of Drawback' against item (ii) of Sub-Serial No. 3605, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 968 (Rupees Nine hundred and sixty eight only) per tonne."

2. In the Column 'Rate of Drawback' against sub-item (ii) of item (B) of sub-Serial No. 3606, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 528 (Rupees five hundred and twenty eight only) per tonne."

3. In the Column "Rate of Drawback" against Sub-item (ii) of item (a) of sub-Serial No. 3608, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 575 (Rupees Five hundred and seventy five only) per tonne."

4. In the Column 'Rate of drawback' against sub-item (ii) of item (b) of Sub-Serial No. 3608 the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 581 (Rupees five hundred and Eighty one only) per tonne."

5. In the Column 'Rate of drawback' against sub-item (b) of item (i) of clause (c) of sub-Serial No. 3608, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 895 (Rupees Eight hundred and ninety five only) per tonne."

6. In the Column 'Rate of drawback' against sub-item (b) of item (ii) of Clause (c) of sub-Serial No. 3608, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 935 (Rupees Nine hundred and thirty five only) per tonne."

7. In the Column 'Rate of drawback' against Sub-item (ii) of item (d) of sub-Serial No. 3608, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 770 (Rupees Seven hundred and seventy only) per tonne."

8. In the Column 'Rate of drawback' for sub-item (b) of item (i) of sub-clause (1) of Clause (e) of sub-Serial No. 3608, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 770/- (Rupees Seven hundred and seventy only) per tonne."

9. In the Column 'Rate of drawback' for sub-item (b) of item (ii) of sub-clause (1) of clause (e) of sub-serial No. 3608, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 581 (Rupees five hundred and Eighty one only) per tonne."

10. In the Column 'Rate of drawback' for sub-item (ii) of item (2) of clause (e) of Sub-Serial No. 3608, the following shall be substituted namely :—

"Rs. 403 (Rupees four hundred and three only) per tonne."

11. In the Column 'Rate of drawback' against item (ii) Clause (b) of Sub-Serial No. 3609, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 549 (Rupees five hundred and forty nine only) per tonne."

12. In the Column 'Rate of drawback' against item (ii) Clause (b) of Sub-Serial No. 3611, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 661 (Rupees six hundred and sixty one only) per tonne."

13. In the Column 'Rate of drawback' against item (ii) of Sub-Serial No. 3613, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 505 (Rupees five hundred and five only) per tonne."

14. In the Column 'Rate of drawback' against item (ii) of Sub-Serial No. 3615, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 952 (Rupees Nine hundred and fifty two only) per tonne."

15. In the Column 'Rate of drawback' against item (ii) of Sub-Serial No. 3616, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 403 (Rupees four hundred and three only) per tonne."

16. In the Column 'Rate of drawback' against item (ii) of Sub-Serial No. 3617, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 661 (Rupees six hundred and sixty one only) per tonne."

17. In the Column 'Rate of drawback' against item (ii) of sub-Serial No. 3621, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 670 (Rupees six hundred and seventy only) per tonne."

18. In the Column 'Rate of drawback' against sub-serial No. 3625, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 775 (Rupees Seven hundred and Seventy five only) per tonne."

19. In the Column 'Rate of drawback' against item (ii) of sub-Serial No. 3629, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 703 (Rupees Seven hundred and three only) per tonne."

20. In the Column 'Rate of drawback' against item (ii) of sub-Serial No. 3631, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 731 (Rupees Seven hundred and thirty one only) per tonne."

21. In the Column 'Rate of drawback' against sub-item (ii) of item (e) of sub-Serial No. 3640, the following shall be substituted namely :—

"Rs. 503 (Rupees five hundred and three only) per tonne."

22. In the Column 'Rate of drawback' against sub-item (ii) of item (f) of sub-Serial No. 3640, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 803 (Rupees Eight hundred and three only) per tonne."

23. In the Column 'Rate of drawback' against item (ii) of item (h) of sub-Serial No. 3640, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 633 (Rupees six hundred and thirty three only) per tonne."

24. In the Column 'Rate of drawback' against Sub-item (ii) of item (i) of Sub-Serial No. 3640, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 769 (Rupees seven hundred and sixty nine only) per tonne."

25. In the Column 'Rate of drawback' against item (b) of sub-Serial No. 3812 for the words and figures "Rs. 520 (Rupees five hundred and twenty) per tonne of galvanised steel content" read "Rs. 587 (Rupees five hundred and eighty seven only) per tonne of galvanised steel Content."

26. This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 25th day of October, 1978.

MAHESH KUMAR, Under Secy.